

आदर्श प्रश्नपत्र 2024–25
कक्षा–11
विषय–कृषि गणित एवं सांख्यिकी

समय: 3 घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक–50 अंक

नोट— 15 मिनट का समय परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है।

निर्देश—1. इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं।

2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. सभी प्रश्नों के अंक उनके समुख अंकित हैं।

1— बहुविकल्पीय प्रश्न

- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| (क) | यदि तीन संख्याएँ a, b, c समान्तर श्रेणी में हैं तो— | 1 |
| (a) | $b^2 = ac$ | (b) $2b = a + c$ |
| (c) | $a = b + c$ | (d) $2c = a + b$ |
| (ख) | यदि ${}^n C_x = {}^n C_y$ है तो | 1 |
| (a) | $x = y$ | (b) $x = ny$ |
| (c) | $x + y = n$ | (d) $y = nx$ |
| (ग) | 10,16,50 का गुणोत्तर माध्य है: | 1 |
| (a) | 40 | (b) 60 |
| (c) | 20 | (d) 80 |
| (घ) | बिन्दु $(a \sin x, a \cos x)$ और मूल बिन्दु के बीच की दूरी है। | 1 |
| (a) | a | (b) $2a$ |
| (c) | शून्य | (d) $3a$ |
| (ङ) | $\frac{2}{3}$ का सरल रूप | 1 |
| (a) | 9 | (b) 3 |
| (c) | 6 | (d) 27 |
| 2. | घातांक के रूप में लिखिए $\log_2 64 = 6$ | 1 |
| 3. | दिखाइये कि बिन्दु $(2,1)$ $(6,7)$ और $(-4,-8)$ समरेख हैं। | 1 |
| 4. | y का प्रतिलोमानुपाती x है तथा $x=4$ तो y का मान 5 है। | 1 |
| यदि $x=10$ तो y का मान ज्ञात कीजिए। | | |

5. सिद्ध कीजिए कि $\frac{\sqrt{1+\cos\theta}}{\sqrt{1-\cos\theta}} = \cos\theta + \cot\theta$ 1
6. श्रेणी 5,9,13 का पाँचवा पद ज्ञात कीजिए । 1
7. कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिये हुये हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करें। 2
- | प्राप्तांक | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| विद्यार्थियों की संख्या | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 |
8. एक नदी 10 मीटर गहरी 100 मीटर चौड़ी है, जो 245 किमी/प्रति घंटा की गति से बह रही है। प्रति सेकेंण्ड समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। 2
9. यदि $A+B+C=90^\circ$ तो सिद्ध कीजिए कि:-
 $\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A = 1$ 2
10. सिद्ध कीजिए कि $\frac{\sin^2 A - \sin^2 B}{\sin A + \cos A - \sin A + \cos A} = \tan(A+B)$ 2
11. बिन्दु P के निर्देशांक ज्ञात की किजिए जो बिन्दुओं A (2,4) तथा B (6,8) को मिलाने वाले रेखाखण्ड को 3:5 के अनुपात में अन्तः विभाजित करना है। 2
12. एक अर्धगोले के परिगत एक बेलन है और बेलन के अन्तर्गत एक शंकु है। यदि उनके आधार सर्वनिष्ठ हैं तो उनके आयतन में क्या अनुपात है। 4
13. रेखा $3x+2y$ का लेखाचित्र कीजिए तथा इन रेखा और निरेशांक के मध्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4
14. एक वर्गाकार क्षेत्र 20मी लम्बा है। उसके अन्दर एक 2.5 मी पथ चारों ओर है तो उस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4
15. निम्नलिखित सारणी से समान्तर माध्य तथा मानक निचलन ज्ञात कीजिए। 6
वर्ग अन्तराल : 0–10 10–20 20–30 30–40 40–50
बारम्बारता : 4 2 4 6 5
16. निम्नलिखित सारणी से समान्तर माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। 6
- | वर्ग अंतराल | 3–6 | 6–9 | 9–12 | 12–15 | 15–18 | 18–21 | 21–24 |
|-------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| बारम्बारता | 2 | 5 | 21 | 23 | 10 | 12 | 3 |
17. कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिये हुए हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करें— 6
- | प्राप्तांक : | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|
| विद्यार्थियों की संख्या : | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 |

